

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 60]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 जनवरी 2020 — माघ 4, शक 1941

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 22 जनवरी 2020

अधिसूचना

क्रमांक/एफ-17-106/2009/25-2. — अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 15 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (आकस्मिकता योजना) नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,

उपाबंध-1 में -

(क) क्रम संख्यांक 24 में, कॉलम (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 326क अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना.”

“भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 326ख स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना.

[अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित “धारा 3(2)(फ), 3(2)(फक)”]

(ख) क्रम संख्यांक 26 में, कॉलम (2) में, शब्द, अंक एवं चिन्ह “धारा 3(2)(V क)” के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह “धारा 3(क)(फक)” प्रतिस्थापित किया जाये.

(ग) क्रम संख्यांक 44 में, कॉलम (2) में,-

(एक) शब्द “बलात्संग या सामूहिक बलात्संग” के स्थान पर, शब्द एवं चिन्ह “बलात्संग, प्रकृति विरुद्ध अपराध या सामूहिक बलात्संग” प्रतिस्थापित किया जाये.

(दो) पैरा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(1) बलात्संग आदि या प्रकृति के विरुद्ध अपराध [भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 375, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ड और धारा 377].”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.